

## प्रेस नोट दिनांक-10.02.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपहृत/गुमशुदा की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 124/2020 धारा 363/376 भादवि0 व 06 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित पीड़िता को सकुशल बरामद कर अभियुक्त लल्लू पुत्र जगतपाल निवासी बछौदा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि दिनांक-12.03.2020 को थाना कोतवाली कर्वी अन्तर्गत ग्राम निवासी महिला द्वारा सूचना दी गयी कि संहेद है कि उसकी लड़की को गांव के ही 02 व्यक्ति भगा कर ले गये है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 124/2020 धारा 363 भादवि0 बनाम बाइस्तवा संजय आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया। बालिका की बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी द्वारा उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। विवेचना के अभियुक्त लल्लू पुत्र जगतपाल निवासी बछौदा थाना बिसण्डा जनपद बांदा प्रकाश में आया। पुलिस टीम द्वारा सुरागरशी एवं पतारशी कर कल दिनांक-09.02.2021 को बालिका को सकुशल बरामद कर अभियुक्त लल्लू को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी धीरेन्द्र कुमार
3. महिला आरक्षी मंजूलता

(2). आज दिनांक 10.02.2021 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री घनश्याम पाण्डेय प्रभारी यातायात द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक यात्रि सेवा यान में यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान करने हेतु विक्रम, जीप एवम रोड़वेज और प्राइवेट बस चालकों को महिला यात्रि को सम्मान पूर्वक वाहन में बैठा कर तथा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने हेतु जागरूक किया गया तथा साथ ही साथ दो पहिया एवम चार पहिया वाहन चालको को क्रमशः हेलमेट एवम सीटबेल्ट लगाने हेतु जागरूक किया गया तथा उन्हें इस बात के लिए भी निर्देशित किया गया कि शराब पीकर एवम नींद आने की स्थिति में वाहन न चलाये यातायात नियमों से सम्बंधित पम्पलेट चालको, परिचालकों एवम जनता को वितरित किये गए साथ ही साथ पैदल आने जाने वाले लोगों को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया एवम नियम का पालन न करने वाले कुल 110 व्यक्तियों का चालान किया गया जिसमें 30 वाहनों से 5000 नगद समन शुल्क किया गया

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपहृता/गुमशुदा की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गणेश कुमार तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 19/2021 धारा 363 से सम्बन्धित पीड़िता को सकुशल बरामद कर तस्दीक उपरान्त उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

**बरामदगी करने वाली टीम:-**

1. उ0नि श्री गणेश कुमार
2. म0 का0 उपासना सिंह

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 10.02.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर मे भ्रमण कर , एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा पं0 शिव कुमार इण्टर कॉलेज मऊ , आनन्दी माता मन्दिर, शिव पुरा तिराहा बाजार रोड मऊ व बस स्टैड में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौराहा आदि जगह का भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा बरगढ़ मोड में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम रामपुर मे भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया ।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियो टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।